



भिन्नों का विभाजन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{4} \div \frac{4}{5} =$$

$$1\frac{1}{2} \div 1\frac{2}{3} =$$

$$2\frac{1}{2} \div \frac{1}{7} =$$

$$\frac{6}{9} \div 1\frac{2}{4} =$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{2}{8} =$$

$$\frac{1}{7} \div \frac{1}{6} =$$

$$\frac{1}{5} \div \frac{4}{6} =$$

$$1\frac{2}{5} \div \frac{6}{9} =$$

$$\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4} =$$

$$1\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} =$$



भिन्नों का विभाजन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{4} \div \frac{4}{5} = \frac{15}{16}$$

$$1\frac{1}{2} \div 1\frac{2}{3} = \frac{9}{10}$$

$$2\frac{1}{2} \div \frac{1}{7} = \frac{35}{2} = 17\frac{1}{2}$$

$$\frac{6}{9} \div 1\frac{2}{4} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{1}{4} \div \frac{2}{8} = 1$$

$$\frac{1}{7} \div \frac{1}{6} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{1}{5} \div \frac{4}{6} = \frac{3}{10}$$

$$1\frac{2}{5} \div \frac{6}{9} = \frac{21}{10} = 2\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4} = \frac{2}{7}$$

$$1\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$$